



भारतीय रिज़र्व बैंक बुलेटिन

साप्ताहिक सांख्यिकी संपूरक

खंड 40

जनवरी 31, 2025

संख्या 5

1. भारतीय रिज़र्व बैंक - देयताएं और आस्तियां*

(₹ करोड़)

मद	2024	2025		घट-बढ़	
	जनवरी 26	जनवरी 17	जनवरी 24	समाह	वर्ष
	1	2	3	4	5
1 जारी नोट	3386333	3558952	3564306	5354	177973
1.1 संचलन में नोट	3386320	3558938	3564296	5357	177976
1.2 बैंकिंग विभाग में रखे नोट	13	14	10	-3	-3
2 जमा राशियां					
2.1 केंद्र सरकार	100	101	101	0	0
2.2 बाजार स्थिरीकरण योजना	0	0	0	0	0
2.3 राज्य सरकारें	42	42	42	0	0
2.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	933808	897242	889895	-7348	-43914
2.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	8039	7798	7918	120	-121
2.6 अन्य बैंक	52354	49947	50602	655	-1753
2.7 अन्य	740099	444573	576685	132112	-163414
3 अन्य देयताएं	1732677	1989935	2002933	12998	270256
कुल देयताएं / आस्तियां	6853454	6948591	7092482	143891	239028
1 विदेशी मुद्रा आस्तियां	4582564	4653195	4671954	18759	89390
2 सोना	394644	597172	600379	3207	205735
3 रुपया प्रतिभूतियां (खजाना बिलों सहित)	1358899	1265672	1288414	22742	-70485
4 ऋण और अग्रिम					
4.1 केंद्र सरकार	-	0	0	0	0
4.2 राज्य सरकारें	12810	23623	20495	-3128	7685
4.3 नाबार्ड	-	0	0	0	0
4.4 अनुसूचित वाणिज्य बैंक	337637	262197	354098	91901	16461
4.5 अनुसूचित राज्य सहकारी बैंक	0	0	0	0	0
4.6 भारतीय औद्योगिक विकास बैंक	-	-	-	-	-
4.7 भारतीय निर्यात-आयात बैंक	-	-	-	-	-
4.8 अन्य	148294	123845	133691	9845	-14603
5 खरीदे और भुनाए गए बिल					
5.1 वाणिज्यिक	-	-	-	-	-
5.2 खजाना	-	-	-	-	-
6 निवेश	2064	2064	2064	0	0
7 अन्य आस्तियां	16542	20824	21388	564	4846

* डाटा अनंतिम है; अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

2. विदेशी मुद्रा भंडार*

मद	जनवरी 24, 2025 को		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़					
			समाह		मार्च 2024 की समाप्ति पर		वर्ष	
	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर	₹ करोड़	मिलि. अम. डॉलर
	1	2	3	4	5	6	7	8
1 कुल भंडार	5426706	629557	22174	5574	35450	-16862	300636	12824
1.1 विदेशी मुद्रा आस्तियां #	4636524	537891	18866	4758	-125320	-33059	97164	-8253
1.2 स्वर्ण	600379	69651	3207	704	161060	16976	205735	22170
1.3 विशेष आहरण अधिकार	153955	17861	-61	79	2731	-271	2281	-388
1.4 आईएमएफ में प्रारक्षित भंडार की स्थिति	35848	4154	161	33	-3020	-508	-4544	-705

* अंतर, यदि कोई है, तो पूर्णांकन की वजह से है।

निम्नलिखित को शामिल नहीं करता है (क) रिज़र्व बैंक की एसडीआर होल्डिंग्स, क्योंकि वे एसडीआर होल्डिंग्स के तहत शामिल हैं; (ख) आईआईएफसी (यूके) द्वारा जारी किए गए बांडों में निवेश; और (ग) सार्क और एसीयू मुद्रा अदला-बदली व्यवस्था के अंतर्गत उधार दी गई राशि।

3. अनुसूचित वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर) का भा.रि. बैंक के पास जमा नकद शेष

(राशि ₹ करोड़ में)

जनवरी 24, 2025 को समाप्त होने वाले पखवाड़े के लिए औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अपेक्षाएं (सीआरआर) = ₹ 910251 करोड़	2025												
	जनवरी 11	जनवरी 12	जनवरी 13	जनवरी 14	जनवरी 15	जनवरी 16	जनवरी 17	जनवरी 18	जनवरी 19	जनवरी 20	जनवरी 21	जनवरी 22	जनवरी 23
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
भारतीय रिज़र्व बैंक के पास वास्तविक नकदी शेष	935921	933145	958395	923609	907853	911219	903855	905183	903041	908808	907742	889137	892467
औसत दैनिक आरक्षित नकदी निधि अनुपात के प्रतिशत के रूप में नकदी शेष	102.8	102.5	105.3	101.5	99.7	100.1	99.3	99.4	99.2	99.8	99.7	97.7	98.0

4. अनुसूचित वाणिज्य बैंक – भारत में कारोबार

(₹ करोड़)

मद	जनवरी 10, 2025 को बकाया	निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़				
		पखवाड़ा	वित्त वर्ष में अब तक		वर्ष-दर-वर्ष	
			2023-24	2024-25	2024	2025
	1	2	3	4	5	6
1 बैंकिंग प्रणाली के प्रति देयताएं						
1.1 बैंकों से मांग और मीयादी जमाराशियां	270043	-21532	36636	-24427	53463	7288
1.2 बैंकों से उधार	143689	5355	113781	-38740	134885	-37291
1.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	30536	3931	11222	-41915	15432	-39210
2 अन्य के प्रति देयताएं						
2.1 कुल जमाराशियां	22150249 (22084821)	87658	1940921 (1821562)	1675023	2310060 (2190701)	2165414 (2219345)
2.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	10.8 (10.1)	8.2	13.1 (12.4)	10.8 (11.2)
2.1.1 मांग	2478194	-91379	84970	34341	189777	212793
2.1.2 मीयादी	19672055	179037	1855952	1640682	2120284	1952621
2.2 उधारियां	926377	-28723	380687	148435	353023	100361
2.3 अन्य मांग और मीयादी देयताएं	985205	-11421	82564	47777	193155	112990
3 रिज़र्व बैंक से उधार	292649	47952	67558	69933	136706	60006
4 रिज़र्व बैंक के पास नकदी एवं शेष राशि	1008834	-19860	106073	-12082	99121	2591
4.1 उपलब्ध नकदी	78233	-11034	-3331	-11200	-19286	-8699
4.2 रिज़र्व बैंक के पास शेष राशि	930602	-8826	109404	-881	118407	11290
5 बैंकिंग प्रणाली के पास आस्तियां						
5.1 अन्य बैंकों में जमाशेष	204074	-12664	1008	5746	9674	9643
5.2 मांग और अल्प सूचना पर प्राप्य राशि	12027	-6316	-13087	-328	-7867	249
5.3 बैंकों को अग्रिम	39185	-1497	1036	-9183	-923	-3035
5.4 अन्य आस्तियां	56453	-7394	25822	-58971	31678	-36499
6 निवेश	6619827 (6568952)	24080	591145 (494524)	513269	805830 (709210)	613534 (659280)
6.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.4	10.9 (9.1)	8.4	15.5 (13.6)	10.2 (11.2)
6.1 सरकारी प्रतिभूतियों में	6619314	24065	591244	513705	805956	613748
6.2 अन्य अनुमोदित प्रतिभूतियों में	513	15	-99	-436	-126	-214
7 बैंक ऋण	17801605 (17368554)	58567	2294690 (1728150)	1369441	2693167 (2126626)	1831679 (1965169)
7.1 क वृद्धि (प्रतिशत)		0.3	16.8 (12.6)	8.3	20.3 (16.0)	11.5 (12.8)
7 क.1 खाद्य ऋण	57723	1584	24063	34642	-8686	13755
7 क.2 खाद्यतर ऋण	17743882	56983	2270628	1334799	2701852	1817924
7 ख.1 ऋण, नकदी ऋण और ओवरड्राफ्ट	17477472	55424	2262006	1343169	2643894	1790560
7 ख.2 देशी बिल-खरीदे गए	74487	2424	12276	14020	17132	22776
7 ख.3 भुनाए गए	211716	-103	29424	14358	39019	19381
7 ख.4 विदेशी बिल-खरीदे गए	15701	150	-2864	-711	-1289	-980
7 ख.5 भुनाए गए	22229	672	-6152	-1396	-5590	-58

1. 14 जुलाई 2023 के बाद के डेटा में एक बैंक के साथ एक गैर-बैंक के विलय का प्रभाव शामिल है।
2. कोष्ठक में दिए गए आंकड़े विलय के प्रभाव को नहीं दर्शाते हैं।

5. अनुपात और दरें

(प्रतिशत)

मद/सामाज सप्ताह	2024		2025			
	जनवरी 26	दिसंबर 27	जनवरी 3	जनवरी 10	जनवरी 17	जनवरी 24
	1	2	3	4	5	6
अनुपात						
आरक्षित नकदी निधि अनुपात	4.50	4.25	4.00	4.00	4.00	4.00
सांविधिक चलनिधि अनुपात	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00	18.00
नकदी-जमाराशि अनुपात	5.10	4.68	..	4.57	..	..
	(5.07)	(4.66)	..	(4.55)	..	..
ऋण-जमाराशि अनुपात	77.67	78.67	..	78.64	..	..
	(79.98)	(80.42)	..	(80.37)	..	..
वृद्धिशील ऋण-जमाराशि अनुपात	95.59	86.13	..	85.40	..	..
	(117.52)	(82.58)	..	(81.76)	..	..
निवेश-जमाराशि अनुपात	29.49	29.75	..	29.74	..	..
	(29.78)	(29.90)	..	(29.89)	..	..
वृद्धिशील निवेश-जमाराशि अनुपात	24.52	32.53	..	32.25	..	..
	(27.74)	(30.82)	..	(30.64)	..	..
दरें						
नीतिगत रेपो दर	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50	6.50
नियत रिवर्स रेपो दर	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35	3.35
स्थायी जमा सुविधा (एसडीएफ) दर *	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25	6.25
सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
बैंक दर	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75	6.75
आधार दर	9.10/10.25	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40	9.10/10.40
एमसीएलआर (एक दिवसीय)	8.00/8.60	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45	8.15/8.45
सावधि जमा दर > 1 वर्ष	6.50/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25	6.00/7.25
बचत जमाराशि दर	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00	2.70/3.00
मांग मुद्रा दर (भारत आसत)	6.77	6.71	6.60	6.74	6.59	6.57
91-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.02	6.55	6.60	6.59	6.60	6.61
182-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.19	6.70	6.72	6.70	6.72	6.71
364-दिवसीय खजाना बिल (प्राथमिक) आय	7.17	6.69	6.70	6.69	6.70	6.68
10-वर्षीय सरकारी प्रतिभूति आय (एफबीआईएल)	7.18	6.79	6.78	6.77	6.78	6.75
संदर्भ दर और फार्वर्ड प्रीमिया @						
भारतीय रुपया-अमरीकी डॉलर स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	83.12	85.59	85.76	85.90	86.58	86.29
भारतीय रुपया-यूरो स्पॉट दर (₹ प्रति विदेशी मुद्रा)	90.42	89.11	88.11	88.35	89.08	90.21
अमरीकी डॉलर का फार्वर्ड प्रीमिया 1-माह	1.30	3.70	3.12	3.66	3.12	2.90
3-माह	1.59	2.91	3.37	3.62	3.16	2.89
6-माह	1.60	2.61	2.86	2.99	2.65	2.43

* प्रेस विज्ञापि संख्या 2022-2023/41, दिनांक 08 अप्रैल 2022 के अनुसार।

@ 10 जुलाई 2018 से, फाइनेंसियल बेचमार्कस् इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (एफ बीआईएल) ने अमरीका / डॉलर भारतीय रुपया की हाजिर दर तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की विनिमय दर की गणना करने और उनके प्रसार के कार्य का जिम्मा भारतीय रिज़र्व बैंक से अपने पास ले लिया है। दिनांक अक्टूबर 13, 2023 से फार्वर्ड प्रीमियम के आंकड़े एफबीआईएल से लिए जाएंगे।
कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल है।

6. मुद्रा भंडार : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	पखवाड़ा		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	जनवरी 10	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
एम3	24831618 (24939860)	26647844 (26713273)	135334 (134072)	0.5 (0.5)	1866601	8.4	1816226 (1773412)	7.3 (7.1)	2367282	10.8	2437483 (2383552)	10.1 (9.8)
1 घटक (1.1+1.2+1.3+1.4)												
1.1 जनता के पास मुद्रा	3410276	3499907	40194	1.2	35434	1.1	89631	2.6	148140	4.7	188037	5.7
1.2 बैंकों के पास मांग जमाराशि	2586888	2619298	-91414	-3.4	87410	3.8	32410	1.3	191741	8.7	211291	8.8
1.3 बैंकों के पास मीयादी जमाराशि	18739918 (18848160)	20425014 (20490442)	184558 (183297)	0.9 (0.9)	1743052	10.5	1685096 (1642282)	9.0 (8.7)	2011262	12.3	2012995 (1959064)	10.9 (10.6)
1.4 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	103625	1996	2.0	704	0.9	9089	9.6	16139	25.9	25160	32.1
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 सरकार को निवल बैंक ऋण	7512016 (7603571)	7978893 (8029768)	128642 (128649)	1.6 (1.6)	62974	0.9	466877 (426197)	6.2 (5.6)	474680	7.0	750386 (704641)	10.4 (9.6)
2.1.1 रिजर्व बैंक	1193213	1104710	103819		-435089		-88503		-237895		88673	
2.1.2 अन्य बैंक	6318803 (6410358)	6874183 (6925058)	24823 (24830)	0.4 (0.4)	498063	8.7	555380 (514700)	8.8 (8.0)	712575	13.0	661713 (615967)	10.7 (9.8)
2.2 वाणिज्य क्षेत्र को बैंक ऋण	16672145 (17202832)	18157779 (18590830)	66966 (61474)	0.4 (0.3)	1720454	11.9	1485634 (1387998)	8.9 (8.1)	2148325	15.3	2007689 (1874199)	12.4 (11.2)
2.2.1 रिजर्व बैंक	14406	10512	-7		-21321		-3894		1503		5285	
2.2.2 अन्य बैंक	16657739 (17188426)	18147266 (18580317)	66972 (61480)	0.4 (0.3)	1741775	12.1	1489527 (1391892)	8.9 (8.1)	2146822	15.3	2002404 (1868914)	12.4 (11.2)
2.3 बैंकिंग क्षेत्र की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5567245	5592056	-98773	-1.7	370775	7.5	24811	0.4	535304	11.3	309516	5.9
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयताएं	33432	35419	0	0	2311	7.6	1988	5.9	2996	10.1	2823	8.7
2.5 बैंकिंग क्षेत्र की निवल मुद्रेतर देयताएं	4953219 (5467219)	5116302 (5534800)	-38499 (-42722)	-0.7 (-0.8)	289913	6.9	163083 (67582)	3.3 (1.2)	794023	21.5	632930 (507626)	14.1 (10.1)
2.5.1 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयताएं	1789875	1910485	19569	1.0	152400	9.6	120610	6.7	236952	15.8	170520	9.8

नोट: कोष्ठक में दिये गए आंकड़ों में किसी बैंक के साथ गैर-बैंक के विलय से उत्पन्न प्रभाव शामिल हैं।

7. आरक्षित मुद्रा : घटक और स्रोत

(₹ करोड़)

मद	निम्न को बकाया		निम्नलिखित अवधि में घट-बढ़									
	2024	2025	सप्ताह		वित्त वर्ष में अब तक				वर्ष-दर-वर्ष			
					2023-24		2024-25		2024		2025	
	मार्च 31	जनवरी 24	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%	राशि	%
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
आरक्षित मुद्रा	4631446	4652687	-562	0.0	107061	2.4	21241	0.5	267261	6.3	158868	3.5
1 घटक (1.1+1.2+1.3)												
1.1 संचलन में करेंसी	3511461	3599978	5357	0.1	40686	1.2	88517	2.5	127425	3.9	180771	5.3
1.2 रिजर्व बैंक के पास बैंकर की जमाराशि	1025449	948414	-6573	-0.7	63724	6.8	-77035	-7.5	123246	14.2	-45787	-4.6
1.3 रिजर्व बैंक के पास 'अन्य' जमाराशि	94536	104294	653	0.6	2650	3.4	9758	10.3	16590	26.0	23883	29.7
2 स्रोत (2.1+2.2+2.3+2.4-2.5)												
2.1 रिजर्व बैंक द्वारा सरकार को दिया गया निवल ऋण	1193213	1047893	-96552		-516766		-145320		-228369		113534	
2.1.1 रिजर्व बैंक द्वारा केंद्र को दिया गया निवल ऋण	1186655	1027441	-93424		-528785		-159214		-224435		105849	
2.2 बैंकों और वाणिज्य क्षेत्र को रिजर्व बैंक द्वारा दिया गया ऋण	-46147	284085	86154		366500		330232		243573		12028	
2.2.1 बैंकों पर रिजर्व बैंक के निवल दावे	-60553	261325	79376		387812		321878		249559		-5495	
2.3 रिजर्व बैंक की निवल विदेशी मुद्रा आस्तियां	5240824	5271756	22387	0.4	388282	8.5	30932	0.6	438623	9.7	296118	6.0
2.4 जनता के प्रति सरकार की करेंसी देयता	33432	35683			2602	8.6	2251	6.7	3096	10.4	2796	8.5
2.5 रिजर्व बैंक की निवल मुद्रेतर देयता	1789875	1986730	12550	0.6	133557	8.4	196855	11.0	189662	12.4	265608	15.4

8. भारिबैं द्वारा चलनिधि संबंधी लेनदेन

(₹ करोड़)

दिनांक	चलनिधि समायोजन सुविधा						स्थायी चलनिधि सुविधाएं	ओएमओ (एकमुश्त)		निवल अंतर्वेशन (+)/ अवशोषण (-) (1+3+5+7+9-2-4-6-8)
	रेपो	रिवर्स रेपो	परिवर्तनशील रेपो दर	परिवर्तनशील रिवर्स रेपो दर	एमएसएफ	एसडीएफ		विक्रय	क्रय	
	1	2	3	4	5	6		8	9	
जनवरी 20, 2025	-	-	75772	-	4461	78650	-10	-	4980	6553
जनवरी 21, 2025	-	-	71900	-	8207	43894	-	-	1355	37568
जनवरी 22, 2025	-	-	125009	-	3349	75393	-	-	4045	57010
जनवरी 23, 2025	-	-	145683	-	2831	67458	-	-	3900	84956
जनवरी 24, 2025	-	-	362107	-	3232	92874	-	-	6570	279035
जनवरी 25, 2025	-	-	-	-	3351	53731	-	-	-	-50380
जनवरी 26, 2025	-	-	-	-	3459	54345	-	-	-	-50886

एसडीएफ: स्थायी जमा सुविधा; एमएसएफ: सीमांत स्थायी सुविधा.

9. प्रमुख मूल्य सूचकांक

मद	2023		2024		वर्तमान महीने का प्रतिशत परिवर्तन		
	नवंबर	दिसंबर	नवंबर	दिसंबर	पिछले महीने की तुलना में	मार्च की तुलना में	वर्ष-दर-वर्ष
	1	2	3	4	5	6	7
1 उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2012=100)	186.3	185.7	196.5	195.4	-0.6	5.2	5.2
1.1 ग्रामीण	188.2	187.6	199.4	198.4	-0.5	5.6	5.8
1.2 शहरी	184.2	183.6	193.2	192.0	-0.6	4.6	4.6
2 औद्योगिक कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (2016=100)	139.1	138.8	144.5	..	..	..	..
3 थोक मूल्य सूचकांक (2011-12=100)	153.1	151.8	156.0	155.4	-0.4	2.6	2.4
3.1 प्राथमिक वस्तुएं	187.6	182.8	197.9	193.8	-2.1	5.8	6.0
3.2 ईंधन और बिजली	156.2	155.8	147.1	149.9	1.9	-1.4	-3.8
3.3 विनिर्मित उत्पाद	140.2	140.0	143.0	143.0	0.0	2.1	2.1

स्रोत: सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय, आर्थिक सलाहकार कार्यालय, श्रम ब्यूरो।

10. जमा प्रमाणपत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
जनवरी 10, 2025	493931	33890	7.05 - 7.48
जनवरी 24, 2025	499397	30081	7.07 - 7.88

11. वाणिज्यिक पत्र

समाप्त पखवाड़ा	बकाया राशि (₹ करोड़)	पखवाड़े के दौरान	
		जारी राशि (₹ करोड़)	ब्याज दर (प्रतिशत)
	1	2	3
दिसंबर 31, 2024	435779	51524	6.98 - 12.00
जनवरी 15, 2025	450242	39647	7.06 - 12.12

12. चुनिंदा मुद्रा बाजारों में औसत दैनिक टर्नओवर

(₹ करोड़)

मद	समाप्त सप्ताह		
	जनवरी 26, 2024	जनवरी 17, 2025	जनवरी 24, 2025
	1	2	3
1 मांग मुद्रा	20336	16683	20631
2 नोटिस/सावधि मुद्रा	1587	6324	1396
3 त्रिपक्षीय रेपो	528710	779174	649147
4 बाजार रेपो	452165	661241	525850
5 कॉरपोरेट बांड में रेपो	1220	7717	6711

13. भारत सरकार : बकाया खजाना बिल

(₹ करोड़)

जनवरी 24, 2025 को	प्रमुख धारक			कुल
	बैंक	प्राथमिक व्यापारी	राज्य सरकारें	
	1	2	3	
91-दिवसीय	6520	14311	78012	199812
182-दिवसीय	39047	46104	8268	179968
364-दिवसीय	72359	108412	34014	371014
सीएमबी	-	-	-	-

14. भारत सरकार और राज्य सरकारों द्वारा लिए गए बाजार उधार - दिनांकित प्रतिभूतियां

(अंकित मूल्य ₹ करोड़ में)

मद	जुटाई गई सकल राशि			जुटाई गई निवल राशि		
	2024-25 (जनवरी 24, 2025 तक)	2023-24 (जनवरी 26, 2024 तक)	2023-24	2024-25 (जनवरी 24, 2025 तक)	2023-24 (जनवरी 26, 2024 तक)	2023-24
	1	2	3	4	5	6
1. भारत सरकार	1211697	1408000	1543000	850275	967871	1102871
2. राज्य सरकारें	693820	681825	1007058	472615	466316	717140

WSS वेबसाइट पर उपलब्ध है। WSS हफ्तावारे बुलेटिन (https://website.rbi.org.in/web/rbi/-/publications/a-handbook-on-rbi-s-weekly-statistical-supplement-15762) में उपलब्ध है।

समग्र रूप से आंकड़ों का स्रोत रबी वेबसाइट पर https://data.rbi.org.in/ में उपलब्ध है।

श्री जे. वि. नन्दा, निदेशक द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक, शहीद भगतसिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई - 400 001 की ओर से संपादित एवं प्रकाशित हैं।